



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 23]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, जनवरी 15, 2009/पौष 25, 1930

No. 23]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 15, 2009/PAUSA 25, 1930

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2009

सं. 135 (आरई-2008)/2004-2009

फा. सं. 01/94/180/एए-ईओपी/ए एम 09/नीति-4.—विदेश व्यापार नीति, 2004-2009 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार, प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 (आरई-2008) में, एतद्वारा, निम्नलिखित संशोधन करते हैं।

1. निर्यात दायित्व (ई ओ) अवधि और इसके विस्तार से संबंधित पैराग्राफ 4.22 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाता है :—

“4.22 अग्रिम प्राधिकार के तहत निर्यात दायित्व की पूर्ति की अवधि प्राधिकार पत्र जारी करने की तिथि से शुरू होगी जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो। मान्य निर्यात श्रेणी के तहत भारत/विदेश में परियोजनाओं/टर्नकी परियोजनाओं की आपूर्ति के मामले को छोड़कर जहाँ निर्यात दायित्व सविदा अवधि के दौरान पूरा किया जाना आवश्यक है, 24 महीनों के भीतर पूरा किया जाएगा।

परिशिष्ट 30क में यथा उल्लिखित निविष्टि (निविष्टियों) के साथ जारी अग्रिम प्राधिकार पत्रों के लिए निर्यात दायित्व की अवधि उसमें प्रत्येक प्रविष्टि के मद्दे निर्धारित अवधि के अनुसार होगी। इन निविष्टियों के लिए जारी अग्रिम प्राधिकार पत्र के मामले में निर्यात दायित्व की अवधि को बढ़ाने की सुविधा की अनुमति नहीं दी जाएगी। क्षेत्रीय प्राधिकारी इस आशय के संबंध में अग्रिम प्राधिकार पत्र में पृष्ठांकन करेगा।”

2. नीचे यथा उल्लिखित पैराग्राफ 4.22.1 के तीसरे उप पैराग्राफ को हटा दिया गया है :

“निर्यात दायित्व की अवधि के विस्तार की सुविधा अग्रिम प्राधिकार पत्र के मामले में और मसालों व चाय के आयात के लिए भी नहीं दी जाएगी। जहाँ पेंसिलिन और इसके लवण [आई टी सी (एचएस) कोड सं. 29411010] और 6-एपीए [आई टी सी (एचएस) कोड सं. 29411050] को एक निविष्टि के तौर पर अनुमत किया गया है। क्षेत्रीय प्राधिकारी इस आशय के संबंध में अग्रिम प्राधिकार पत्र में पृष्ठांकन करेगा।”

3. प्रक्रिया पुस्तक खण्ड 1 (परिशिष्ट और आयात-निर्यात प्रपत्र) में एक नया परिशिष्ट (संलग्नक) अर्थात् परिशिष्ट 30क को जोड़ा गया है।

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

आर. एस. गुजराल, महानिदेशक विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

संलग्नक

परिशिष्ट-30क

(कृपया प्रक्रिया पुस्तक खण्ड 1 के पैराग्राफ को देखें)

(विनिर्दिष्ट निविष्टियों के लिए निर्यात दायित्व अवधि)

क्रम सं.	टिप्पणियाँ, यदि कोई हैं के साथ निविष्टि मद (मदें)	निर्यात दायित्व अवधि
1	2	3
1.	मसाले	
	(क) मिर्च के ऑयल और ओलियो-रेजिन्स, इलायची और हरी मिर्च और साधारण रूप से साफ करने के लिए, ग्रेडिंग या पुनर्विक्रय आदि के लिए नहीं के विनिर्माण के लिए मूल्य परिवर्धन उद्देश्य जैसे क्रेशिंग/ग्राइंडिंग/स्ट्रलाइजेशन आदि के लिए मसालों का आयात	सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा प्रथम खेप की निकासी की तारीख से 120 दिन
	(ख) मसाले के तेल और ओलियो-रेजिन्स के विनिर्माण के लिए मसाले (मिर्च, इलायची और हरी मिर्च को छोड़कर)	सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा प्रथम खेप की निकासी की तारीख से 12 महीने
	(ग) उपरोक्त (क) और (ख) के अलावा	सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा प्रथम खेप की निकासी की तारीख से 90 दिन
2.	औषधियाँ (विशिष्ट निर्यात आदेश और आयात पूर्व शर्त के साथ)	सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा प्रथम खेप की निकासी की तारीख से 6 महीने
3.	पैनिमिलीन और इसके साल्ट्स [आई टी सी (एचएस) कोड सं. 29411010] और 6-एपीए [आईटीसी (एचएस) कोड सं. 29411050]	सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा प्रथम खेप की निकासी की तारीख से 6 महीने
4.	चाय	सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा प्रथम खेप की निकासी की तारीख से 6 महीने
5.	नारियल तेल	सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा प्रथम खेप की निकासी की तारीख से 90 दिन

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 15th January, 2009

No. 135 (RE-2008)/2004—2009

F. No. 01/94/180/AA-EOP/AM 09/PC-4.—In exercise of powers conferred under Paragraph 2.4 of the Foreign Trade Policy 2004—2009, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in Handbook of Procedures, Vol. 1 (RE 2008):

- Paragraph 4.22 related to Export Obligation (EO) Period and its Extension stands replaced by the following :
 “4.22. Fulfillment period of EO under Advance Authorisation shall commence from Authorisation issue date, unless otherwise specified. EO shall be fulfilled with 24 months except in case of supplies to projects/turnkey projects in India/abroad under Deemed Export category where EO must be fulfilled during contracted duration.
 EO period for Advance Authorisations issued with input(s) as mentioned in Appendix 30A shall be as per the period stipulated against each entry therein. Facility of extension of EOP shall not be allowed in case of Advance Authorisation issued for these inputs. RA shall make an endorsement in Advance Authorisation to this effect.”
- 3rd Sub-paragraph of paragraph 4.22.1 as mentioned below stands deleted :
 “Facility of extension of EOP shall not be allowed in case of Advance Authorisation wherein import of penicillin and its salts [ITC(HS) Code No. 29411010] and 6-APA [ITC(HS) Code No. 29411050] have been allowed as an input and also for import of spices and tea. RA shall make an endorsement in Advance Authorisation to this effect.”

3. A new Appendix (annexed) i.e. Appendix 30A stands added in the HBP Vol.1 (Appendices & Aayaat-Niryaat Form).
This issues in public interest.

R. S. GUJRAL, Director General of Foreign Trade
& ex-officio Addl. Secy.

ANNEX

APPENDIX - 30A

(Please see paragraph 4.22 of HBP Vol.1)

Export Obligation Period for Specified Inputs.

S1. No.	Input Item(s) along with Remarks, if any	Export Obligation Period
1	2	3
1.	Spices	
	(a) Import of Spices for Value Addition purpose like crushing/grinding/sterilisation or for manufacture of oils and oleoresins of pepper; cardamom and chillies and not for simple cleaning, grading, repacking etc.	120 days from the date of clearance of first consignment by Customs Authority.
	(b) Spices (other than pepper, cardamom and chillies) for manufacture of Spice oils and Oleoresins.	12 months from the date of clearance of first consignment by Customs Authority.
	(c) Other than (a) & (b) above.	90 days from the date of clearance of first consignment by Customs Authority.
2.	Drugs (with a specific export order and pre-import condition).	6 months from the date of clearance of first consignment by Customs Authority.
3.	Penicillin and its salts [ITC (HS) Code No. 29411010] and 6- APA [ITC (HS) Code No. 29411050]	6 months from the date of clearance of first consignment by Customs Authority.
4.	Tea	6 months from the date of clearance of first consignment by Customs Authority.
5.	Coconut Oil	90 days from the date of clearance of first consignment by Customs Authority.